



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2011/पौष 14, 1932

No. 10]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2011/PAUSA 14, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( डाक विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2011

**का.आ. 10(अ).**— भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये 15 जनवरी, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 50-ग में, -----

(क) अनुसूची I के कॉलम (5), (6), (7) तथा इनके अंतर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

देश/महाद्वीप/उप-महाद्वीप	प्रथम 250 ग्राम तथा उसके भाग के लिए	प्रत्येक अतिरिक्त 250 ग्राम तथा उसके भाग के लिए
(5)	(6)	(7)
"अफगानिस्तान	₹ 460	₹ 30
अर्जेंटीना	₹ 775	₹ 175
ऑस्ट्रेलिया	₹ 610	₹ 150

ऑस्ट्रिया	₹ 765	₹ 75
बहरीन	₹ 655	₹ 50
बांग्लादेश	₹ 460	₹ 30
बार्बडोस	₹ 590	₹ 150
बेलारूस	₹ 665	₹ 75
बेल्जियम	₹ 755	₹ 100
बर्मूडा	₹ 465	₹ 150
भूटान	₹ 360	₹ 30
बोत्स्वाना	₹ 910	₹ 100
ब्रुनेई दारुस्सलाम	₹ 390	₹ 50
बुल्गेरिया(गणराज्य)	₹ 515	₹ 75
कंबोडिया	₹ 485	₹ 50
कनाडा	₹ 890	₹ 150
केप वर्ड	₹ 795	₹ 150
केमैन आयलैंड	₹ 750	₹ 150
चीन(गणराज्य)	₹ 385	₹ 50
क्यूबा	₹ 615	₹ 175
साइप्रस	₹ 730	₹ 75
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य	₹ 910	₹ 100
डेनमार्क	₹ 830	₹ 100
मिस्र	₹ 730	₹ 75
एल सल्वाडोर	₹ 755	₹ 175
एरीट्रिया	₹ 505	₹ 75
एस्टोनिया	₹ 390	₹ 75
इथियोपिया	₹ 730	₹ 75
फिजी	₹ 465	₹ 150
फ्रांस	₹ 675	₹ 100
जॉर्जिया	₹ 650	₹ 50
जर्मनी	₹ 705	₹ 100
घाना	₹ 440	₹ 100
ग्रीस	₹ 890	₹ 75
गयाना	₹ 795	₹ 150
हांग कांग	₹ 495	₹ 50
हंगरी	₹ 890	₹ 75
आइसलैंड	₹ 920	₹ 100
इंडोनेशिया	₹ 390	₹ 50
ईरान	₹ 865	₹ 50

इराक	₹ 570	₹ 50
आयरलैंड	₹ 985	₹ 100
इस्राइल	₹ 730	₹ 75
इटली	₹ 935	₹ 75
जापान	₹ 410	₹ 75
जॉर्डन	₹ 730	₹ 75
केन्या	₹ 885	₹ 75
कोरिया	₹ 395	₹ 75
कुवैत	₹ 640	₹ 50
लात्विया	₹ 670	₹ 75
लक्जमबर्ग	₹ 830	₹ 100
मकाऊ(चीन)	₹ 380	₹ 50
मलावी	₹ 675	₹ 75
मलेशिया	₹ 860	₹ 50
माल्दीव	₹ 365	₹ 50
मॉरिशस	₹ 735	₹ 75
मेक्सिको	₹ 845	₹ 175
मंगोलिया	₹ 645	₹ 50
मोरक्को	₹ 770	₹ 100
नामीबिया	₹ 615	₹ 100
नाऊरू	₹ 560	₹ 150
नेपाल	₹ 355	₹ 30
नीदरलैंड्स	₹ 845	₹ 100
न्यूजीलैंड	₹ 500	₹ 150
नाइजर	₹ 435	₹ 100
नाइजीरिया	₹ 805	₹ 100
नॉर्वे	₹ 1215	₹ 100
ओमान	₹ 625	₹ 50
पाकिस्तान	₹ 470	₹ 30
पनामा(गणराज्य)	₹ 980	₹ 175
पपुआ न्यू गिनी	₹ 430	₹ 100
फिलीपींस	₹ 390	₹ 75
पोलैंड	₹ 745	₹ 75
पुर्तगाल	₹ 695	₹ 100
कतर	₹ 710	₹ 50
रवांडा	₹ 670	₹ 75
रोमानिया	₹ 960	₹ 75

रूस	₹ 850	₹ 75
सऊदी अरब	₹ 495	₹ 50
सेनेगल	₹ 790	₹ 150
सिंगापुर	₹ 380	₹ 50
स्पेन	₹ 705	₹ 100
श्रीलंका	₹ 365	₹ 30
सूडान	₹ 510	₹ 75
स्वीडन	₹ 970	₹ 75
स्विट्जरलैंड	₹ 900	₹ 100
ताइवान	₹ 495	₹ 75
तंजानिया	₹ 740	₹ 75
थाइलैंड	₹ 370	₹ 50
ट्यूनीशिया	₹ 675	₹ 100
तुर्की	₹ 625	₹ 75
संयुक्त अरब अमीरात	₹ 635	₹ 50
यूगांडा	₹ 890	₹ 75
युनाइटेड किंगडम(ग्रेट ब्रिटेन)	₹ 865	₹ 100
यूक्रेन	₹ 885	₹ 75
संयुक्त राज्य अमेरिका	₹ 540	₹ 150
वियतनाम	₹ 375	₹ 50
यमन	₹ 500	₹ 50";

(ख) अनुसूची II के कॉलम (5), (6), (7) तथा इनके अंतर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

देश/महाद्वीप/उप-महाद्वीप	प्रथम 250 ग्राम तथा उसके भाग के लिए	प्रत्येक अतिरिक्त 250 ग्राम तथा उसके भाग के लिए
(5)	(6)	(7)
"अफगानिस्तान	₹ 460	₹ 30
ऑस्ट्रेलिया	₹ 610	₹ 150
ऑस्ट्रिया	₹ 765	₹ 75
बहरीन	₹ 655	₹ 50
बांग्लादेश	₹ 460	₹ 30
बाबैडॉस	₹ 590	₹ 150
बेलारूस	₹ 665	₹ 75
बर्माडा	₹ 575	₹ 150

भूटान	₹ 470	₹ 30
बोत्स्वाना	₹ 910	₹ 100
ब्रूनेई दारुस्सलाम	₹ 500	₹ 50
बुल्गेरिया(गणराज्य)	₹ 515	₹ 75
कंबोडिया	₹ 485	₹ 50
कनाडा	₹ 890	₹ 150
केमैन आयलैंड	₹ 750	₹ 150
चीन(गणराज्य)	₹ 500	₹ 50
क्यूबा	₹ 615	₹ 175
साइप्रस	₹ 730	₹ 75
मिस्र	₹ 730	₹ 75
एरीट्रिया	₹ 505	₹ 75
एस्टोनिया	₹ 505	₹ 75
इथियोपिया	₹ 730	₹ 75
फिजी	₹ 575	₹ 150
फ्रांस	₹ 860	₹ 100
जॉर्जिया	₹ 650	₹ 50
जर्मनी	₹ 855	₹ 100
घाना	₹ 550	₹ 100
ग्रीस	₹ 890	₹ 75
हांग कांग	₹ 645	₹ 50
हंगरी	₹ 890	₹ 75
आइसलैंड	₹ 920	₹ 100
आयरलैंड	₹ 985	₹ 100
इस्राइल	₹ 730	₹ 75
इटली	₹ 935	₹ 75
जापान	₹ 520	₹ 75
जॉर्डन	₹ 730	₹ 75
केन्या	₹ 885	₹ 75
कोरिया	₹ 510	₹ 75
लात्विया	₹ 670	₹ 75
मकाऊ(चीन)	₹ 495	₹ 50
मलावी	₹ 675	₹ 75
मलेशिया	₹ 860	₹ 50
मॉरिशस	₹ 735	₹ 75

18 4/11-2

मंगोलिया	₹ 645	₹ 50
मोरक्को	₹ 770	₹ 100
नामीबिया	₹ 615	₹ 100
नाऊरू	₹ 560	₹ 150
नेपाल	₹ 470	₹ 30
नीदरलैंड्स	₹ 845	₹ 100
न्यूजीलैंड	₹ 500	₹ 150
नॉर्वे	₹ 1215	₹ 100
ओमान	₹ 625	₹ 50
पाकिस्तान	₹ 470	₹ 30
फिलीपींस	₹ 505	₹ 75
पोलैंड	₹ 745	₹ 75
पुर्तगाल	₹ 695	₹ 100
कतर	₹ 710	₹ 50
रोमानिया	₹ 960	₹ 75
रूस	₹ 850	₹ 75
सेनेगल	₹ 790	₹ 150
सिंगापुर	₹ 495	₹ 50
स्पेन	₹ 705	₹ 100
सूडान	₹ 510	₹ 75
स्विट्जरलैंड	₹ 900	₹ 100
ताइवान	₹ 495	₹ 75
तंजानिया	₹ 740	₹ 75
थाइलैंड	₹ 480	₹ 50
तुर्की	₹ 625	₹ 75
संयुक्त अरब अमीरात	₹ 635	₹ 50
यूगांडा	₹ 890	₹ 75
युनाइटेड किंगडम(ग्रेट ब्रिटेन)	₹ 865	₹ 100
यूक्रेन	₹ 885	₹ 75
संयुक्त राज्य अमेरिका	₹ 540	₹ 150
वियतनाम	₹ 490	₹ 50"

[फा. सं. 43-1/2008-डीए]

पी. टी. एस. कुमार, उप-महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं ग्लोबल व्यवसाय)

**टिप्पणी:** मूल नियम एस.ओ. 436 (ई) दिनांक 24.7.1986 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तदुपरांत एस.ओ. 132(ई) दिनांक 26.2.1991, एस.ओ. 193(ई) दिनांक 18.2.1994 और एस.ओ. 1007(ई) दिनांक 30.10.2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY****(Department of Posts)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2011

**S.O. 10(E).**— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (1<sup>st</sup> Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the 15<sup>th</sup> day of January, 2011.
2. In rule 50-C of the Indian Post Office Rules, 1933, -----
- (a) in Schedule I, for columns (5), (6), (7) and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely:-

Country/Continent/Sub-continent	First 250 gms or part thereof	For every additional 250 gms or part thereof
(5)	(6)	(7)
"Afghanistan	₹ 460	₹ 30
Argentina	₹ 775	₹ 175
Australia	₹ 610	₹ 150
Austria	₹ 765	₹ 75
Bahrain	₹ 655	₹ 50
Bangladesh	₹ 460	₹ 30
Barbados	₹ 590	₹ 150
Belarus	₹ 665	₹ 75
Belgium	₹ 755	₹ 100

Bermuda	₹ 465	₹ 150
Bhutan	₹ 360	₹ 30
Botswana	₹ 910	₹ 100
Brunei Darussalam	₹ 390	₹ 50
Bulgaria (Rep)	₹ 515	₹ 75
Cambodia	₹ 485	₹ 50
Canada	₹ 890	₹ 150
Cape Verde	₹ 795	₹ 150
Cayman Island	₹ 750	₹ 150
China (People's Republic)	₹ 385	₹ 50
Cuba	₹ 615	₹ 175
Cyprus	₹ 730	₹ 75
Democratic Republic of Congo	₹ 910	₹ 100
Denmark	₹ 830	₹ 100
Egypt	₹ 730	₹ 75
El Salvador	₹ 755	₹ 175
Eritrea	₹ 505	₹ 75
Estonia	₹ 390	₹ 75
Ethiopia	₹ 730	₹ 75
Fiji	₹ 465	₹ 150
France	₹ 675	100
Georgia	₹ 650	₹ 50
Germany	₹ 705	₹ 100



Ghana	₹ 440	₹ 100
Greece	₹ 890	₹ 75
Guyana	₹ 795	₹ 150
Hong Kong	₹ 495	₹ 50
Hungary	₹ 890	₹ 75
Iceland	₹ 920	₹ 100
Indonesia	₹ 390	₹ 50
Iran	₹ 865	₹ 50
Iraq	₹ 570	₹ 50
Ireland	₹ 985	₹ 100
Israel	₹ 730	₹ 75
Italy	₹ 935	₹ 75
Japan	₹ 410	₹ 75
Jordan	₹ 730	₹ 75
Kenya	₹ 885	₹ 75
Korea (Republic of)	₹ 395	₹ 75
Kuwait	₹ 640	₹ 50
Latvia	₹ 670	₹ 75
Luxembourg	₹ 830	₹ 100
Macao (China)	₹ 380	₹ 50
Malawi	₹ 675	₹ 75
Malaysia	₹ 860	₹ 50
Maldives	₹ 365	₹ 50

184010-3

Mauritius	₹ 735	₹ 75
Mexico	₹ 845	₹ 175
Mongolia	₹ 645	₹ 50
Morocco	₹ 770	₹ 100
Namibia	₹ 615	₹ 100
Nauru	₹ 560	₹ 150
Nepal	₹ 355	₹ 30
Netherlands	₹ 845	₹ 100
New Zealand	₹ 500	₹ 150
Niger	₹ 435	₹ 100
Nigeria	₹ 805	₹ 100
Norway	₹ 1215	₹ 100
Oman	₹ 625	₹ 50
Pakistan	₹ 470	₹ 30
Panama (Rep)	₹ 980	₹ 175
Papua New Guinea	₹ 430	₹ 100
Philippines	₹ 390	₹ 75
Poland	₹ 745	₹ 75
Portugal	₹ 695	₹ 100
Qatar	₹ 710	₹ 50
Rwanda	₹ 670	₹ 75
Romania	₹ 960	₹ 75
Russia	₹ 850	₹ 75

Saudi Arabia	₹ 495	₹ 50
Senegal	₹ 790	₹ 150
Singapore	₹ 380	₹ 50
Spain	₹ 705	₹ 100
Sri Lanka	₹ 365	₹ 30
Sudan	₹ 510	₹ 75
Sweden	₹ 970	₹ 75
Switzerland	₹ 900	₹ 100
Taiwan	₹ 495	₹ 75
Tanzania	₹ 740	₹ 75
Thailand	₹ 370	₹ 50
Tunisia	₹ 675	₹ 100
Turkey	₹ 625	₹ 75
United Arab Emirates (UAE)	₹ 635	₹ 50
Uganda	₹ 890	₹ 75
United Kingdom of Great Britain	₹ 865	₹ 100
Ukraine	₹ 885	₹ 75
United States of America (USA)	₹ 540	₹ 150
Vietnam	₹ 375	₹ 50
Yemen	₹ 500	₹ 50 ";

184111 - 4

(b) in Schedule II, for columns (5), (6), (7) and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely:----

Country/Continent/Sub-continent	First 250 gms or part thereof	For every additional 250 gms or part thereof
(5)	(6)	(7)
"Afghanistan	₹ 460	₹ 30
Australia	₹ 610	₹ 150
Austria	₹ 765	₹ 75
Bahrain	₹ 655	₹ 50
Bangladesh	₹ 460	₹ 30
Barbados	₹ 590	₹ 150
Belarus	₹ 665	₹ 75
Bermuda	₹ 575	₹ 150
Bhutan	₹ 470	₹ 30
Botswana	₹ 910	₹ 100
Brunei Darussalam	₹ 500	₹ 50
Bulgaria (Rep)	₹ 515	₹ 75
Cambodia	₹ 485	₹ 50
Canada	₹ 890	₹ 150
Cayman Island	₹ 750	₹ 150
China (People's Rep)	₹ 500	₹ 50
Cuba	₹ 615	₹ 175
Cyprus	₹ 730	₹ 75
Egypt	₹ 730	₹ 75
Eritrea	₹ 505	₹ 75
Estonia	₹ 505	₹ 75
Ethiopia	₹ 730	₹ 75
Fiji	₹ 575	₹ 150
France	₹ 860	₹ 100
Georgia	₹ 650	₹ 50
Germany	₹ 855	₹ 100
Ghana	₹ 550	₹ 100
Greece	₹ 890	₹ 75
Hong Kong	₹ 645	₹ 50
Hungary	₹ 890	₹ 75
Iceland	₹ 920	₹ 100
Ireland	₹ 985	₹ 100
Israel	₹ 730	₹ 75
Italy	₹ 935	₹ 75
Japan	₹ 520	₹ 75
Jordan	₹ 730	₹ 75
Kenya	₹ 885	₹ 75

Korea (Republic of)	₹ 510	₹ 75
Latvia	₹ 670	₹ 75
Macao (China)	₹ 495	₹ 50
Malawi	₹ 675	₹ 75
Malaysia	₹ 860	₹ 50
Mauritius	₹ 735	₹ 75
Mongolia	₹ 645	₹ 50
Morocco	₹ 770	₹ 100
Namibia	₹ 615	₹ 100
Nauru	₹ 560	₹ 150
Nepal	₹ 470	₹ 30
Netherlands	₹ 845	₹ 100
New Zealand	₹ 500	₹ 150
Norway	₹ 1215	₹ 100
Oman	₹ 625	₹ 50
Pakistan	₹ 470	₹ 30
Philippines	₹ 505	₹ 75
Poland	₹ 745	₹ 75
Portugal	₹ 695	₹ 100
Qatar	₹ 710	₹ 50
Romania	₹ 960	₹ 75
Russia	₹ 850	₹ 75
Senegal	₹ 790	₹ 150
Singapore	₹ 495	₹ 50
Spain	₹ 705	₹ 100
Sudan	₹ 510	₹ 75
Switzerland	₹ 900	₹ 100
Taiwan	₹ 495	₹ 75
Tanzania	₹ 740	₹ 75
Thailand	₹ 480	₹ 50
Turkey	₹ 625	₹ 75
United Arab Emirates (UAE)	₹ 635	₹ 50
Uganda	₹ 890	₹ 75
United Kingdom of Great Britain	₹ 865	₹ 100
Ukraine	₹ 885	₹ 75
United States of America (USA)	₹ 540	₹ 150
Vietnam	₹ 490	₹ 50 "

- (c) Any charge, surcharge, cess, tax etc. notified by the Government of India, from time to time, shall apply.

[F. No. 43-1/2008-DA]

P.T.S. KUMAR, Dy. Director General (International Relations & Global Business)

**Footnote:** The principal rules were published in the Gazette of India vide S.O. 436(E) dated 24.7.1986 and subsequently amended vide S.O. 132(E) dated 26.2.1991, S.O. 193(E) dated 18.2.1994 and S.O. 1007(E), dated 30.10.2000.